



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 1983/पौष 17, 1904

No. 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1983/PAUSA 17, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रीवह्न और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1983

सा. का. नि. 14(ख) :—मोटर यान (तीसरा पक्ष बीमा) नियम, 1946 में, केन्द्रीय सरकार जिसे मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, इसमें और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 133 की उप-धारा (1) द्वारा अध्यापित एतद्वारा प्रकाशित किया है। यह प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए है जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लेकर 30 दिन पूरे होने के बाद विचार किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति से उक्त नियमों के प्रारूप सम्बन्धी जो आक्षेप या आपत्तियां उक्त अधिध की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होंगी, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

- (1) इन नियमों का नाम मोटर यान (तीसरा पक्ष बीमा) (संशोधन) नियम, 1983 है।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान (तीसरा पक्ष बीमा) नियम, 1946 की अनुसूची में, प्रपत्र 'क'—के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

“प्रपत्र 'क'—

मोटर यान अधिनियम, 1939

बीमा प्रमाण-पत्र

(नियम 4 देखिए)

प्रमाण पत्र संख्या

पालिसी संख्या

- बीमा हुई गाड़ी का ब्यौरा :—
  - रजिस्ट्रेशन चिन्ह और संख्या
  - गाड़ी की घनीय (व्ययुक्त) क्षमता
  - निर्माण वर्ष और मक
  - भार-वाहन क्षमता
- बीमाकृत का नाम और पता
- अधिनियम के प्रयोजन के लिए बीमा शुरू होने की प्रभावी तारीख
- बीमा पूरा होने की तारीख
- व्यक्ति जो गाड़ी चलाने के लिए अधिकृत हो
- प्रयोग की शर्तें
- बीमे का प्रीमियम।

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित पालिसी तथा बीमे का यह प्रमाणपत्र मोटर यान, अधिनियम, 1939 के अध्याय—VIII के उपबन्धों के अनुसार जारी किया गया है।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)  
(भारत)

[फा. सं. टी. डब्ल्यू. /टी. जी. एम. (48/82)]

बी. आर. सहाण, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT**  
(Transport Wing)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 1983

**G.S.R. 14(E).**—The following draft rules further to amend the Motor Vehicles (Third Party Insurance) Rules 1946, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 111 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) are hereby published as required by sub-section (1) of the section 133 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the said period will be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

1. (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Third Party Insurance) (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Third Party Insurance) Rules, 1946, in the Schedule, the Form-A—shall be substituted as under, namely :—

“FORM ‘A’

Motor Vehicles Act, 1939

Certificate of Insurance

(see rule 4)

Certificate No.

Policy No.

1. Description of the vehicle insured :
  - (a) Registration mark and number,
  - (b) Cubic capacity of the vehicle.
  - (c) Make and year of manufacture.
  - (d) Carrying capacity.
2. Name and address of insured.
3. Effective date of commencement of insurance for the purposes of the Act.
4. Date of expiry of insurance.
5. Persons or classes of persons entitled to drive.
6. Limitations as to use.
7. Insurance premium.

I/We hereby certify that the policy to which this certificate relates as well as this certificate of Insurance are issued in accordance with the provisions of Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1939.

Authorised Insurer  
(India)”

[F. No. TW/TGM(48)/82]

B. R. CHAVAN, Dy. Secy.